



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

16 माघ 1939 (श0)
(सं0 पटना 98) पटना, सोमवार, 5 फरवरी 2018

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

15 नवम्बर 2017

सं० 22/नि०सि०(सिवान)—11-19/2012-2031—श्री कामेश्वर प्रसाद (आई०डी०-4526), सहायक अभियंता के विरुद्ध बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल सं०-1, मधुबनी शिविर पडरौना के अन्तर्गत वर्ष 2012 में कराये गये बाढ़ संघर्षात्मक कार्यों से संबंधित विभागीय उड़नदस्ता अंचल द्वारा प्रतिवेदित जाँच प्रतिवेदन के आलोक में पी०पी० तटबंध के कि०मी० 26.75 पर अवस्थित स्पर पर दिनांक 01.08.12 से 13.08.12 के बीच वास्तविक रूप से कराये गये परक्यूपाईन लेईंग कार्य को बढ़ा-चढ़ाकर NR प्रतिवेदित करने के फलस्वरूप सरकारी राशि की क्षति पहुँचाने के प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोप के लिए उड़नदस्ता जाँच प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक-2488, दिनांक 29.11.16 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

उक्त के आलोक में श्री प्रसाद ने अपने पत्रांक-64, दिनांक 24.12.16 द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में मुख्य रूप से उल्लेख किया कि पी०पी० तटबंध के कि०मी० 26.75 पर अवस्थित स्पर पर दिनांक 01.08.12 से 14.08.12 के बीच वास्तविक रूप से कराये गये कार्य का ही NR प्रतिवेदित किया गया है। उक्त स्पर पर दिनांक 01.08.12 से दिनांक 13.08.12 के बीच कुल 83 अद्द परक्यूपाईन लेईंग कार्य कराया गया। पाली पंजी के अनुसार दिनांक 01.08.12 को 46 अद्द दिनांक 02.08.12 को 31 अद्द एवं 03.08.12 को 6 अद्द जिसे NR सं०-8 दिनांक 02.08.12 से 46 अद्द NR सं०-12, दिनांक 03.08.12 से 31 अद्द एवं NR 17 दिनांक 04.08.12 से 6 अद्द इस प्रकार कुल 83 अद्द प्रतिवेदित किया गया है। इस प्रकार कि०मी० 26.75 पर वास्तविक रूप से पाली पंजी में अंकित किये गये परक्यूपाईन लेईंग कार्य एवं NR से प्रतिवेदित कार्य की संख्या में कोई अंतर नहीं है।

श्री प्रसाद द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा में पाया गया कि पाली पंजी का दिनांक 01.08.12 से 03.08.12 (प्रथम पाली तक) एवं 01.08.12 से 13.08.12 तक कराये गये कार्यों का NR संलग्न करते हुए कहा गया है कि कि०मी० 26.75 स्पर पर दिनांक 01.08.12 से 03.08.12 तक कराये गये वास्तविक रूप से परक्यूपाईन लेईंग कार्य की कुल सं०-83 अद्द का ही NR सं०-8 दिनांक 02.08.12 से 46 अद्द NR सं० 12, दिनांक 03.08.12 से 31 अद्द एवं NR-17 दिनांक 04.08.12 से 6 अद्द अर्थात् कुल 83 अद्द को ही बेतार संवाद से प्रतिवेदित किया गया है। चूँकि आरोपी द्वारा पाली पंजी का पूर्ण पेज (दिनांक 04.08.12 से 13.08.12 तक) नहीं दिया गया है। ऐसी स्थिति में संचिका में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर कि०मी० 26.10 से कि०मी० 27.75 के बीच कार्य हेतु स्थल लेखा के अनुसार कुल 1881

अदद परक्यूपाईन सेट की प्राप्ति एवं निर्गत किया गया है। जबकि पाली रजिस्टर के अनुसार कुल 493 अदद खपत होने का उल्लेख मिलता है तथा NR के माध्यम से कुल 1932 अदद परक्यूपाईन लेईंग कार्य प्रतिवेदित किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि परक्यूपाईन लेईंग कार्य में अनियमितता बरती गई है।

समीक्षोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा उक्त प्रमाणित आरोप के लिए आरोपित पदाधिकारी को "2 वेतनवृद्धियों पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक" का दंड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है।

अनुशासनिक प्राधिकार के उक्त निर्णय के आलोक में भी कामेश्वर प्रसाद (आई0डी0-4526) सहायक अभियंता को निम्न दंड दिया एवं संसूचित किया जाता है :-

"2 (दो वेतनवृद्धियों पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक"।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
जीउत सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
बिहार गजट (असाधारण) 98-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>